

## टैल्क के परीक्षण पर उपसमति की सुनवाई पर Johnson & Johnson का बयान

10 दसिम्बर 2019

हम समझते हैं कि उपभोक्ताओं के पास टैल्क के बारे में प्रश्न हो सकते हैं, और हम इस मुद्दे पर तथ्यों को साझा करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, आज की सुनवाई का एकतरफा प्रारूप उन अभियोगों से अप्रभेद्य था जो पहले से ही चल रहे मुकदमे में वादी वकीलों द्वारा प्रचारित किए गए हैं।

हमने इस तरह के अतिविशिष्ट वषिय के बारे में एक संतुलित और सार्थक चर्चा में योगदान करने की उम्मीद की थी, फरि भी उपसमतिके साथ चल रही बातचीत के बाद, इसने हमारे तकनीकी वशिषज्ञ को सुनने से मना कर दिया जिनके पास भूवज्ञान में कई डिग्रियाँ हैं और एस्बेस्टोस के लिए परीक्षण का दशकों का अनुभव है। इसने उत्तरी अमेरिकी उपभोक्ता स्वास्थ्य व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हमारी कंपनी के समूह की अध्यक्षता को सुनने से भी इनकार कर दिया। हमने बार-बार उपसमतिको सूचित किया कि हमारे सीईओ सुनवाई वषिय के वशिषज्ञ नहीं हैं, और हमने अपने सीईओ की गवाही के लिए नमिंत्रण को सम्मानपूर्वक मना कर दिया। उपसमतिको हमारी स्थितिका वर्णन करने वाले हमारे 2 दसिंबर 2019 के पत्र को [यहाँ](#) एक्सेस किया जा सकता है। हम इस मुद्दे पर उपसमतिके साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सुनवाई की स्थापना के बारे में उपसमतिको हमने जो चिता व्यक्त की है, उसके बावजूद, इसने तीन वेतनभोगी वादी वशिषज्ञों को तलब किया, जो चल रही मुकदमेबाजी में कंपनी के खिलाफ गवाही देते हैं, जिनमें से दो को उस क्षमता में लाखों डॉलर मिले हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. लोंगो और मोलनि ने Johnson & Johnson के खिलाफ गवाही देने के लिए पैसे मिलने के बाद टैल्क से संबंधित अपनी राय को बदल दिया।

जब वे अन्य कंपनियों के खिलाफ पूर्व में हुई मुकदमेबाजी में शामिल हुए थे, तब डॉ. लोंगो ने कहा था कि कॉस्मेटिक टैल्क में एस्बेस्टोस नहीं है। इससे पहले, डॉ. मोलीन ने कहा था कि Johnson & Johnson द्वारा उपयोग किए गए भंडारों में एस्बेस्टोस नहीं है।

हम अपने टैल्क पर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का समर्थन करते हैं। Johnson का बेबी पाउडर सुरक्षित है, न तो इसमें एस्बेस्टोस मौजूद है और न ही इसके कारण कैंसर होता है, जैसा कि 40 से अधिक वर्षों के वैज्ञानिक प्रमाणों से स्पष्ट है। अभी पछिले हफ्ते ही, हमने 15 तृतीय-पक्ष परीक्षण के परिणामों को [सार्वजनिक रूप से जारी किया है](#) जो दर्शाते हैं कि हमारे टैल्क में कोई एस्बेस्टोस नहीं है। अधिक जानकारी [FactsAboutTalc.com](http://FactsAboutTalc.com) पर उपलब्ध है।

###